



प्रेस नोट

थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत।

थाना पूरनपुर पुलिस टीम व एसओजी टीम द्वारा अभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ी व अमानत में खयानत कर चोरी किये ट्रक संख्या UK 06CA 3906 को मय लदे माल सरिया वजन करीब 25000 किग्रा० के किया बरामद तथा दो अभियुक्तगण को जुर्म धारा 420/406/379/411/120बी भादवि में किया गिरफ्तार।

दिनांक 15.03.2023 को वादी मुकदमा श्री विनय कुमार मित्तल पुत्र जय भगवान मित्तल नि० मेरठ रोड थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ट्रक नम्बर UK 06CA 3906 के चालक मलकीत सिंह पुत्र कुलवंत सिंह नि० जयनगर 4 थाना रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) के द्वारा वादी मुकदमा का सरिया करीब 25000 किग्रा० को मय ट्रक के दिनांक 12.03.2023 को गायब कर देने के सम्बन्ध में मलकीत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म मु०अ०सं०-147/2023 धारा 420/406 भादवि में पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना के क्रम में आज दिनांक 17.03.2023 को थाना पूरनपुर पुलिस टीम ने जिला एसओजी टीम की मदद से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मलकीत सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त मलकीत सिंह उपरोक्त की निशादेही पर जतिन पैलेस थाना पूरनपुर के पास से ट्रक संख्या UK 06CA 3906 को मय लदे माल सरिया वजन करीब 25000 किग्रा० बरामद किया गया तथा अभियुक्त मलकीत सिंह के बताये अनुसार घटना में शामिल अभियुक्त शिशिर हलधर पुत्र सुरेश हलधर नि० 146 डिवाइन सिटी फेस 03 छतरपुर थाना पन्तनगर जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध जुर्म धारा 420/406/379/411/120बी भादवि में चालान मा० न्यायालय करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण -

1. ट्रक नम्बर UK 06CA 3906 के चालक व मालिक मलकीत सिंह पुत्र कुलवंत सिंह नि० जयनगर 4 थाना रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)
2. शिशिर हलधर पुत्र सुरेश हलधर नि० 146 डिवाइन सिटी फेस 03 छतरपुर थाना पन्तनगर जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

बरामदगी- ट्रक संख्या UK 06CA 3906 को मय लदे माल सरिया वजन करीब 25000 किग्रा०

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक पूरनपुर श्री आशुतोष रघुवंशी
2. एसओजी प्रभारी उ०नि० श्री जगदीप मलिक मय टीम
3. उ०नि० श्री रामकुमार
4. का० सन्तोष कुमार
5. का० अमर पाल